



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

No. 20]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 1978/पौष 19, 1899

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 1978/PAUSA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 25(अ) —चूंकि दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर, जिसका संपूर्ण विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान कहा गया है) की बाबत कोई जानकारी या उसे नुकसान पहुंचाने वाली कोई जानकारी शत्रु के लिए उपयोगी हो सकती है;

अतः, अब, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त स्थान को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

अनुसूची

अधिष्ठापन का नाम	स्थान का नाम	स्थान/घर	पुलिस चौकी	तालुका	जिला	क्षेत्र की सीमा या अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
दूरदर्शन केन्द्र (टी० वी० स्टूडियो) श्रीनगर	आकाशवाणी कश्मीर, श्रीनगर के पार्श्व में और (i) पर्यटक स्वागत केन्द्र, (ii) कश्मीर सरकार कला प्रो-रियम, और (iii) श्रीनगर क्लब के निकट स्थित।	ओल्ड मिलिशिया मेस बिल्डिंग (श्रीनगर क्लब के सामने)	कोठी बाग	श्रीनगर	श्रीनगर	(i) पूर्व : शोलम नदी पर बने जीरो पुल को जाने वाली सड़क। (ii) पश्चिम : रेजिडेंसी क्लब को श्रीनगर क्लब से जोड़ने वाली सड़क। कश्मीर सरकार का कला प्रो-रियम टी० वी० सेन्टर के सामने इस सड़क के दूसरी ओर स्थित है। (iii) दक्षिण : सफ़्ट हाउस/अमर सिंह क्लब को श्रीनगर क्लब से जोड़ने वाली सड़क। श्रीनगर क्लब टी० वी० सेन्टर के सामने की सड़क के दूसरी ओर स्थित है। (iv) उत्तर आकाशवाणी कश्मीर, श्रीनगर की कांटेदार तारों की बाड़।

[का० सं० II/21019/2/77-एस०आर०पी०(बी० II)]

पी० के० काठपालिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, January 9, 1978

G.S.R. 25(E).—Whereas information with respect to, or damage to, the Doordarshan Kendra, Srinagar, fully described in the Schedule annexed hereto (hereinafter referred to as the said place) would be useful to an enemy ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (c) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), the Central Government hereby declares the said place to be a prohibited place for the purposes of the said Act.

Name of the Installation	Name of Place	Locality/Village	Police Station	Taluka	District	Boundary or other description of the area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Doordarshan Kendra (T.V. Studio) Srinagar	Situated adjacent to Radio Kashmir, Srinagar and close to : (i) Tourist Reception Centre, (ii) Kashmir Government Arts Emporium, (iii) Srinagar Club.	Old Militia Mess Building (Opposite Srinagar Club)	Kothi Bagh	Srinagar	Srinagar	(i) East : Road linking to the Zero Bridge on the River Jhelum. (ii) West : Road linking the Residency Road to the Srinagar Club. Kashmir Government Arts Emporium is located on the other side of this road opposite TV Centre. (iii) South : Road linking the Circuit Houses/Amar Singh Club to the Srinagar Club. Srinagar Club is located on the other side of the road—opposite TV Centre. (iv) North : Barbed Wire fencing of Radio Kashmir Srinagar.

[F. No. II/21019/2/77-S & P (D.II)]

P.K. KATHPALIA, Jt. Secy.